



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1996]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2019/आषाढ़ 7, 1941

No. 1996]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2019/ASHADHA 7, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2019

का.आ. 2210(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के कडुलोर जिले में NH227 के कि.मी. 103.32 से कि.मी.135.4 (नई कलेक्टर ऑफिस) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"21.01.2019 "** को **"डेली थांथी"** और **"द न्यू इंडियन एक्सप्रेस"** दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के कड्डलोर जिले में NH227 के कि.मी. 103.32 से कि.मी. 135.4 (नई कलेक्टर ऑफिस) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: कड्डलोर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कट्टुमन्नारकोईल				
	गांव का नाम: मन्नारकुडी				
1	54/1A	निजी	झाई	0.0198	कलियमूर्ति स / ओ कुंजधाम (५४/१ अ १ब)
2	54/1B	निजी	झाई	0.016	अमीनबेगम व / ओ सुलैमान सत्तू सायपु (५४/१ब१ब)
3	54/2A	निजी	झाई	0.0081	कलियमूर्ति स / ओ कुंजधाम (५४/२ अ १ब)
4	54/3A	निजी	झाई	0.0164	थायराममल व / ओ रामासामी (५४/३ अ १ब)
5	54/3B	निजी	झाई	0.005	अलफॉन्स अल्फोनेस्डी अल्पकारक स / ओ मरियासुसाई (५४/३ब१ब)
6	54/4B	निजी	झाई	0.0074	अल्फोनेडी अल्पकारक स/ ओ मरियासुसाई (५४/४ब१ब)
7	55/1A2	निजी	वेट	0.0015	अतिमूलम स / ओ कसितंबी (५५/१ अ २ अ २)
8	55/1B	निजी	वेट	0.0029	संबागवल्ली व (५५/१ब२)
9	58/1B	निजी	झाई	0.0034	निराइनलसेल्वम व / ओ गोपीकृष्णन (५८/१ब१ब)
10	58/6A	निजी	झाई	0.0408	कलियमूर्ति स / ओ कुंजधाम (५८/६ अ १ब)

11	58/6C	निजी	ड्राई	0.001	हबीबुल्लाह सायबू स / ओ जैनुलाबुद्दीन (५८/६क१)
12	59/2B1B	निजी	ड्राई	0.0042	कलियमूर्ति स / ओ कुञ्जीधपाध्यम चंदरसीकरण स / ओ कलियमूर्ति (५९/२ब१ब२)
13	92/1A	निजी	मनाई	0.0064	बालू (९२/१ अ २)
14	92/1B	निजी	मनाई	0.0062	गुरुनाथा (९२/१ब२)
15	93/10	निजी	मनाई	0.0165	जयरामन स / ओ कन्नैयन वेल्लन स / ओ गाणगासवै (९३/१० अ २)
16	93/11A	निजी	मनाई	0.0018	समीकाणू (९३/११ अ १ब)
गांव का नाम: वीराननालूर					
17	121/1	निजी(प्राइवेट)	वेट	0.0261	बालसुब्रमनियॉ स / ओ ठण्डापनी (१२१/१ अ २)
18	121/2	निजी	ेट	0.0064	कलैसेलवी व / ओ पत्तुशामय (१२१/२ अ)
19	121/6	निजी	ड्राई	0.0178	षण्मुगा मुठलियार स / ओ सबपति मुठलियार (१२१/६ अ २)
20	121/8A	निजी	ड्राई	0.0244	मीनाची व / ओ राजेंद्रन (१२१/८ अ २)
21	84 / 7	निजी	वेट	0.0111	नजीमुद्दीन स / ओ मोहेथुइपराहीम (८४/७ अ 2)
22	84/2	निजी	ड्राई	0.0005	वीरपंडियां स / ओ राजलिंगम पिरेमठी व / ओ वीरपंडियां (८४/२ अ २)
23	84/5A	निजी	ड्राई	0.002	नजीमुद्दीन स / ओ मुहमतुईपृहीं (84/५ अ १ब)
			कुल	0.2457	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 27th June, 2019

S.O.2210(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH227 on the stretch of land from Km. 103.32 to Km. 135.4 (New Collector office Cuddalore) in the district of CUDDALORE in the state of TAMIL NADU;

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Daily Thanthi*” and “*The New Indian Express*” both dated 21.01.2019 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH227 in the stretch of land from NH227 (New Collector office Cuddalore) in the district of CUDDALORE in the state of TAMIL NADU

State: TAMIL NADU		District: CUDDALORE			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kattumannarkoil				
	Village: Mannarkudi				
1	54/1A	Private	Dry	0.0198	Kaliyamoorthy S / o Kunjedham 54/1A1B
2	54/1B	Private	Dry	0.016	Ameenabegam W / o Sulaiman Settu Sayapu 54/1B1B
3	54/2A	Private	Dry	0.0081	Kaliyamoorthy S / o Kunjedham 54/2A1B
4	54/3A	Private	Dry	0.0164	Thayarammal W/o Ramasamy 54/3A1B
5	54/3B	Private	Dry	0.005	Alphonesdee Alpukark S/o Mariyasusai 54/3B1B
6	54/4B	Private	Dry	0.0074	Alphonede Alpukark S/o Mariyasusai 54/4B1B
7	55/1A2	Private	Wet	0.0015	Athimoolam S/o Kasithambi 55/1A2A2
8	55/1B	Private	Wet	0.0029	Senbagavalli 55/1B2
9	58/1B	Private	Dry	0.0034	Nirainalselvam W / o Gopikrishnan 58/1B1B

10	58/6A	Private	Dry	0.0408	Kaliyamoorthy S/o Kunjedham 58/6A1B
11	58/6C	Private	Dry	0.001	Habibulah Sayabu S/o Jainnabadudheen 58/6C1
12	59/2B1B	Private	Dry	0.0042	Kaliyamoorthy S/o Kunjeedhapadham Chanderasekaran S/o Kaliyamoorthy 59/2B1B2
13	92/1A	Private	Manai	0.0064	Balu 92/1A2
14	92/1B	Private	Manai	0.0062	Gurunathan 92/1B2
15	93/10	Private	Manai	0.0165	Jayaraman S/o Kannaiyan Vellan S/o Ganagasabai 93/10A2
16	93/11A	Private	Manai	0.0018	Samikannu 93/11A1B
Village: Veerananalur					
17	121/1	Private	Wet	0.0261	Balasubramanian S/o Thandapani 121/1A2
18	121/2	Private	Wet	0.0064	Kalaiselvi W/o Pattusamy 121/2A
19	121/6	Private	Dry	0.0178	Shanmuga Muthaliyar S/o Sabapathi Muthaliyar 121/6A2
20	121/8A	Private	Dry	0.0244	Meenachi W/o Rajendran 121/8A2
21	84 / 7	Private	Wet	0.0111	Najemudheen S/o Mohethuiprahim 84/7A2
22	84/2	Private	Dry	0.0005	Veerapandiyan S/o Rajalingam Piraimathi W/o Veerapandiyan 84/2A2
23	84/5A	Private	Dry	0.002	Najemudheen S/o Muhamathuiprahim 84/5A1B
			TOTAL	0.2457	

[F. No. NHAI-HQ/11013/2011-LA/Notif./PIU-Villupuram/3A2/3D2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.